



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{8} =$$

$$\frac{5}{7} \times 2\frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{5} \times \frac{6}{7} =$$

$$\frac{4}{7} \times 2\frac{1}{2} =$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} =$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{7} =$$

$$1\frac{2}{4} \times 1\frac{1}{3} =$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{1}{6} =$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{5}{9} =$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{3}{4} =$$



भिन्नों का गुणन (मिश्रित अंश)

नाम: _____

दिनांक: _____ स्कोर: _____

$$\frac{3}{6} \times \frac{3}{8} = \frac{3}{16}$$

$$\frac{5}{7} \times 2\frac{1}{2} = \frac{25}{14} = 1\frac{11}{14}$$

$$\frac{1}{5} \times \frac{6}{7} = \frac{6}{35}$$

$$\frac{4}{7} \times 2\frac{1}{2} = \frac{10}{7} = 1\frac{3}{7}$$

$$\frac{1}{2} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{14}$$

$$\frac{1}{3} \times \frac{6}{7} = \frac{2}{7}$$

$$1\frac{2}{4} \times 1\frac{1}{3} = 2$$

$$\frac{4}{9} \times \frac{1}{6} = \frac{2}{27}$$

$$\frac{5}{7} \times \frac{5}{9} = \frac{25}{63}$$

$$\frac{4}{8} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{8}$$